

प्रेस नोट दिनांक-28.05.2021

(1). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 28.05.2021 को एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा कस्बा सीतापुर के मलकाना में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा परानू बाबा मंदिर परिसर के आस-पास, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा हनुमानगंज क्योटरा कस्बा राजापुर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मारकुण्डी में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ बाजार, शिवपुर तिराहा एलं बैंक परिसर में तथा एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम रैपुरा में बस स्टैंड, चौराहे, दुकानों आदि स्थानों में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया तथा बाहर निकलने वाले व्यक्तियों बाहर निकलने का कारण पूछा तथा शासन द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करने हेतु बताया गया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(2). आज दिनांक 28.05.2021 को पुलिस लाईन्स चित्रकूट में रिक्लूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन किया गया। सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा परेड की सलामी ली गयी। इसके पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री के0 सत्यनारायणा पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा द्वारा परेड का मान प्रणाम लिया गया। परेड की अगुवाई प्रथम कमाण्डर रिक्लूट आरक्षी शिशिरकान्त एवं द्वितीय कमाण्डर रिक्लूट आरक्षी प्रदुम्न दुबे द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपने सम्बोधन में सभी 183 रिक्लूटों के उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनायें दी गयी एवं बताया कि प्रशिक्षण निदेशालय 30प्र0 लखनऊ के आदेशानुसार पुलिस लाइन चित्रकूट में अन्तिम रूप में कुल 184 रिक्लूट आरक्षियों द्वारा पुलिस लाइन में दिनांक-03.11.2020 को 06 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने लिए आए जिनमें से 01 आरक्षी अस्वस्थ होने पर उसे मूल जनपद वापस कर दिया गया एवं शेष 183 रिक्लूट आरक्षियों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित हुए जिसमें सभी 183 रिक्लूट आरक्षी सफल घोषित हुए।

दीक्षांत सामारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्री के0 सत्यनारायणा पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा एवं श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक द्वारा इन्डोर/आऊटडोर की परीक्षाओं में अलग-अलग विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रिक्लूट आरक्षियों को प्रशस्ति-पत्र एवं ट्राफी प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। रिक्लूट आरक्षी अजय दुबे द्वारा इन्डोर/आऊटडोर परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर बेस्ट कैडेट चुना गया जिसे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रशस्ति-पत्र एवं बेस्ट कैडेट ट्राफी देकर एवं परेड के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कमाण्डर्स को ट्राफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्री सुमेर सिंह प्रतिसार निरीक्षक, आरटीसी प्रभारी श्री हबीब उल्ला, आरटीसी मेजर आफाक खां एवं सभी आरटीसी स्टाफ को उनके विशेष सहयोग की प्रशंसा करते हुए भविष्य में इसी प्रकार के योगदान की अपेक्षा की गयी है।

मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय, प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक, प्रतिसार निरीक्षक एवं सभी प्रशिक्षकों के कठिन परिश्रम व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये आभार व्यक्त किया एवं रिक्लूट आरक्षियों को संबोधित करते हुए कहा कि परेड में शामिल होने पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों का प्रदर्शन जो यहा देखने को मिला है, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया उसके लिए आप सभी काबिले तारीफ है। जिन लोगों को पुरस्कार प्राप्त हुआ है उन लोगों को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं एवं साथ में जो सभी रिक्लूट आरक्षी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है उन सभी को

बधाई दी। आज आप सभी लोग पुलिस अधिकारी बन चुके हैं, इसका पहचान है आपकी सोच, आपका विचार। आपका विचार यदि आज से पुलिस की तरफ होता है आपके लग रहा कि डियूटी के बाद भी आपकी नजर में कोई संदिग्ध व्यक्ति आये तो आप समझ लीजिए कि आप एक पुलिस अधिकारी बन गए हैं। आप भले ही डियूटी पर नहीं हैं फिर भी किसी जरूरत मंद को आपकी जरूरत है तो आपने यदि उसकी मदद कर दी तो समझ लीजिए की आप एक पुलिस अधिकारी है। चाहे आप डियूटी पर हो या न हो किसी जरूरतमंद की मदद कर दी तो आपने अपना फर्ज निभा दिया। आपने प्रशिक्षण के दौरान इनडोर या आउटडोर क्लास में जो भी चीजें सीखे हैं क्या आप आगे भी याद रखेंगे या यही भूल कर चले जाएंगे। जो भी चीजें प्रशिक्षण के दौरान सिखलायी गयी हैं उसको आगे भी बरकरार रखे तब तो वह एक पुलिस अधिकारी है वरना वह सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा है। इसलिए प्रशिक्षण के दौरान दी गयी सिखलायी को हमेशा बरकरार रखें। आप एक पुलिस अधिकारी है या एक नौकरी वाले ये आपको तय करना होगा। यदि आप पुलिस वाले हैं तो आपके अन्दर वो काबिलियत दिखनी चाहिए जो आपसे अपेक्षित है। हमेशा सभी को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। आईपीसी, सीआरपीसी, विविध अधिनियम, अन्य एक्ट एवं प्रकटिल ट्रेनिंग दी गयी है उनको आप कभी भूलेंगे नहीं और निरन्तर उनका अभ्यास करते रहेंगे। आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि आप हमेशा एक अच्छे पुलिस बनकर अधिकारी का दायित्व निभायेंगे। आप सभी अपने परिवार को भी थोड़ा बहुत समय दें जिससे कि बच्चों की अच्छी परवरिश हो। आप सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे प्रतिदिन व्यायाम करें अच्छा खाना खाएं बाहर की चीजें खाने से बचें। आप सभी अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें। आप सभी को उज्ज्वल भविष्य के हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सभी उत्तीर्ण आरक्षियों को शपथ दिलायी गयी।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक महोदय को मोमेन्टो प्रदान कर सम्मानित किया गया।

दीक्षांत सामारोह में माननीय राज्यमंत्री श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल जिलाधिकारी चित्रकूट, अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी प्रशिक्षण श्री शैलेन्द्र कुमार राय, क्षेत्राधिकारी लाइन्स/नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर, श्री पंकज अग्रवाल समाजसेवी एवं गणमान्य व्यक्ति, समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/शाखा प्रभारी/चौकी प्रभारी, श्री घनश्याम पाण्डेय यातायात प्रभारी, टीएसआई श्री योगेश कुमार पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कुमार सिंह एवं प्रशासनिक/ पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा उपस्थित होकर भव्य परेड की कार्यवाही को देखकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री अर्पित पाण्डेय थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 103/2021 धारा 498ए/304बी भादवि0 व 3/4 द0प्र0 अधिनियम के वाँछित अभियुक्त मोहम्मद इलियास पुत्र मोहम्मद मूसा निवासी बिहरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अर्पित पाण्डेय थाना राजापुर
2. आरक्षी अखिलेश कुमार

(4). कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में सीएफओ श्री यतीन्द्रनाथ उमराव के मार्गदर्शन में आज दिनांक-28.05.2021 को अग्निशमन टीमों द्वारा कस्बा मानिकपुर सम्पूर्ण बाजार, मुहल्ला आर्यनगर आवासीय बस्ती, स्वास्थ्य केन्द्र मानिकपुर में सेनेटाइजेशन किया गया।